



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 4, 1978/माघ 15, 1899

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 4, 1978/MAGHA 15, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आवृत्ति

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1978

का. आ. 65(अ)/18कक/आई. बी. आर. ए./78.—केंद्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि श्री काबुली, जिला श्री काकलम, आन्ध्र प्रदेश राज्य में चीनी विनिर्माण करने वाली मर्यादित श्री राम शुगर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड की यूनिट (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) को तीन मारा से अधिक की अवधि के लिये बन्द कर दिया गया है और इस प्रकार की बंदी सर्वाधिक अनुपचित उद्योग के हित के प्रतिकूल है और उक्त औद्योगिक उपक्रम की स्वामी कंपनी की वित्तीय वृत्ति और उक्त औद्योगिक

उपक्रम के संयंत्र और मशीनों की दशा ऐसी है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का पुनः चालू करना संभव है तथा उसका इस प्रकार से पुनः चालू किया जाना चीनी के पर्याप्त उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिये लोकोत्त में आवश्यक है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आन्ध्र प्रदेश सरकार के उपक्रम निजाम शुगर फैक्ट्री लिमिटेड को (जिसे इसके पश्चात् 'अधिकृत नियंत्रण' कहा गया है) उक्त औद्योगिक उपक्रम का निम्नलिखित निबन्ध और शर्तों के अधीन रहते हुये प्रबन्ध तुरन्त ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत करती है अर्थात् :—

- (1) प्राधिकृत नियंत्रक केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सभी निर्देशों का अनुपालन करेगा।
- (2) प्राधिकृत नियंत्रक इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा।
- (3) केन्द्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझती है तो, प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति को पहले भी समाप्त कर सकती है।

यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा।

[सं. फा. 4/4/78-सी. यू. सी.]

जी. वी. रामकृष्णा, अपर सचिव।

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 4th February, 1978

S.O. 65(E)/18AA/IDRA/78.—Whereas the Central Government is satisfied that the unit of Messrs. Sri Rama Sugars and Industries Limited manufacturing sugar at Bobbili in District Srikakulam in the State of Andhra Pradesh (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) has been closed for a period of more than three months and that such closure is prejudicial to the concerned scheduled industry and that the financial condition of the company owning the said industrial undertaking and the condition of the plant and machinery of the said industrial undertaking are such that it is possible to re-start the said industrial undertaking and that such re-starting is necessary in the interests of the general public to ensure adequate production of sugar,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby authorises the Nizam Sugar Factory Limited, an undertaking of the Government of Andhra Pradesh

(hereinafter referred to as 'Authorised Controller'), to take over the management of the said industrial undertaking, subject to the following terms and conditions, namely :—

- (1) The Authorised Controller shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government.
- (2) The Authorised Controller shall hold office for a period of three years from the date of publication in the Official Gazette of this Order.
- (3) The Central Government may terminate the appointment of the Authorised Controller earlier, if it considers it necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of three years commencing from the date of publication in the Official Gazette.

[F. 4(4)/78-CUC]

G. V. RAMAKRISHNA, Additional Secy.

